

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †3123
सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

प्रसाद योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति

†3123. श्री जयदेव गल्ला:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रसाद योजना की स्थिति क्या है;
- (ख) क्या योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उल्लिखित क्षमता निर्माण, कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन प्रशिक्षण के लाभार्थियों के आंकड़े रखे गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) सीएसआर और पीपीपी द्वारा निधि में कुल कितना प्रतिशत अंशदान किया जा रहा है;
- (ङ) क्या, जैसा कि मिशन के उद्देश्यों में परिकल्पित है, इस योजना के रोजगार सृजन, बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक विकास पर प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): आंध्र प्रदेश राज्य में तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) योजना के तहत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग): प्रशाद योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए क्षमता विकास, कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन स्वीकार्य घटक हैं जिनको राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में किए गए ऐसे अनुरोध की प्राप्ति पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तथापि अब तक अनुमोदित परियोजनाओं में ऐसे घटक शामिल नहीं किए गए हैं।

(घ): प्रशाद भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।

(ड.) और (च): पर्यटन मंत्रालय ने प्रशाद योजना का मूल्यांकन किया है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि यह योजना सभी चिह्नित परियोजना स्थलों पर अवसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में विशेष सहयोग दे सकती है और इसमें आवश्यक रोजगार अवसरों का सृजन करने की क्षमता भी है। परियोजना स्थलों पर विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह सम्पूर्ण तीर्थ सम्बन्धी सुविधाओं की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। यह योजना स्थानीय रोजगार और आजीविका सृजन के अतिरिक्त अत्यावश्यक तीर्थस्थल अवसंरचना के सृजन में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है।

अनुबंध

प्रसाद योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति के सम्बन्ध में दिनांक 20.03.2023 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †3123 के भाग (क) के उत्तर में विवरण

| परियोजना का नाम | स्वीकृति वर्ष | अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में) | जारी की गई राशि (करोड़ रु. में) | स्थिति |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| पर्यटन स्थल के रूप में अमरावती टाउन, गुंटूर जिले का विकास | 2015-16 | 27.77 | 27.77 | पूर्ण |
| श्रीसैलम मंदिर का विकास | 2017-18 | 43.08 | 43.08 | पूर्ण |
| विशाखापत्तनम में सिंहाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वारी देवस्थानम में तीर्थ संबंधी सुविधाओं का विकास | 2022-23 | 54.04 | 0.00 | 14.12.2022 को प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया |

इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय को प्रसाद योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार से दो परियोजनाएं यथा काकीनाडा जिले के अन्नावरम में 'श्री वीर वेंकर सत्यनारायण स्वामी मंदिर का विकास और नेल्लोर जिले में 'वेदगिरी लक्ष्मी नरसिंहास्वामी मंदिर का विकास' प्राप्त हुई है।
